



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 366]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

**सा.का.नि. 457(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो, अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ भर्ती नियम 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है खान मंत्रालय के भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2015 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या ;

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :



परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 सहायक रसायनज्ञ	8* (2015)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसूचिवीय)	वेतन बैंड- 2 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड - 2 ; 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिसके पास विज्ञान में डिग्री है जिसमें रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो।

**टिप्पण 1-** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) के पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक रसायनज्ञ के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष कायम रहेगी।

**टिप्पण 2-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।



प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) ( i ) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

( ii ) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 ; 9300- 34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हो :-

( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री ;

( ii ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) या अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण करने वाले कोई अन्य ऐसे संगठन जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव हो।

**टिप्पण 1-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति के संबन्ध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अधीक्षक रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य</li> <li>3. रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो -सदस्य</li> </ol>	<p>प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रसायनज्ञ	9* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसूचिकीय)	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण</b> - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार, द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री</p> <p>(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) या अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण करने वाले कोई अन्य ऐसे संगठन जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण में तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>बांछनीय</b> - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में डाक्टरेट।</p> <p><b>टिप्पण 1</b>- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु-नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं नहीं।</p> <p>तथापि, प्रोन्नत व्यक्ति के लिए विज्ञान में स्नातक है जिसमें विज्ञान एक विषय के रूप में आवश्यक है।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b> : - वेतन बैंड-2; 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. ऐसे सहायक रसायनज्ञ जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p><b>टिप्पण 1</b>- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के</p>	<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, खान विभाग - सदस्य</li> <li>3. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



<p>आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवाक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्न लिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, खान विभाग - अध्यक्ष</li> <li>मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी या अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य</li> <li>अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य</li> </ol>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. ज्येष्ठ रसायनज्ञ	3* (2015) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति-</b> वेतन बैंड-3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे रसायनज्ञ जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवाक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति- (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर - विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन बैंड -3; 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो ;</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p>	<p><b>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - अध्यक्ष</li> <li>अधीक्षक रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य</li> <li>उप-सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य</li> </ol>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



<p>(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) या अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे संगठन जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण में पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री—</p> <p><b>टिप्पण-1</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं; प्रतिनियुक्ति या आमेहन पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण-2</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-3</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-4</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. अधीक्षण रसायनज्ञ	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसन्धीय)	वेतन बैंड-3 15600- 39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b>- ऐसे ज्येष्ठ रसायनज्ञ, जिन्होंने वेतन बैंड-3 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 6600 रु. की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण-1</b>- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण-2</b>- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर</p>	<p><b>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य</li> <li>3. मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान व्यूरो - सदस्य</li> </ol>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



<p>आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड -3, 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो ;</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री</p> <p>(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) या अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे संगठन जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से अयस्क और खनिज के रसायनिक विश्लेषण में दस वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री-</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 22/1/2010/एम-III]

सुधाकर शुक्ला, आर्थिक सलाहकार



## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

**G.S.R. 457(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines, Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist, Assistant Chemist, Recruitment Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist and Assistant Chemist in the Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines (Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist and Assistant Chemist) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Assistant Chemist	8* (2015) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, 'B' Group Gazetted (Non Ministerial).	Pay Band- 2, Rs.9300-34800/- grade pay of Rs. 4600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation



In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Senior Technical Assistant (Chemistry) in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and possessing degree in science with chemistry as one of the subjects.</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility service for promotion to the post of Assistant Chemist shall continue to be three years for persons holding the feeder posts of Senior Technical Assistant (Chemistry) on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Union Territories:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; (i) master's degree in chemistry from a recognised university or institution; and (ii) two years experience in chemical analysis of ores and minerals from a laboratory recognized as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)/Department of Science and Technology (DST) or any other such government organization carrying out chemical analysis of ores and mineral.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee for conserving promotion consisting of :-</b> 1. Superintendent Chemists, Indian Bureau of Mines – Chairman 2. Senior Chemist, Indian Bureau of Mines – Member 3. Chemist, Indian Bureau of Mines – Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.</p>



<p>in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.Chemist	9* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non Ministerial.	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/-	Selection	<p>Not exceeding 35 years</p> <p>(Relaxable for government servants upto five years' in accordance with the instructions for orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or Institution.</p> <p>ii) three years experience in chemical analysis of ores and minerals from a laboratory recognized as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)/Department of Science and Technology (DST) or any other such government organization carrying out chemical analysis of ores and mineral.</p> <p><b>Desirable:</b> Doctorate in Chemistry from a recognized university or institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service</p>	<p>Age-No.</p> <p>Educational qualifications- No.</p> <p>However graduate in science with chemistry as one of the subject is required for promotees.</p>



						Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
--	--	--	--	--	--	---	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
One year for direct recruits and two years for promotees	33.33 percent by promotion failing which by direct recruitment, 66.67 percent by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Chemist in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600/- with three years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee considering promotion consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member- Union Public Service Commission – Chairman;</li> <li>2. Director, Department of Mines – Member;</li> <li>3. Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines – Member.</li> </ol> <p><b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee considering confirmation consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, Department of Mines – Chairman;</li> <li>2. Chief Ore Dressing Officer or Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines – Member;</li> <li>3. Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines – Member.</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.Senior Chemist	3* (2015) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Pay band – 3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract.



(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Chemist in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400/- with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract):</b> Officers Under the Central Government or State Governments or Union Territories or public sector undertakings or recognized research institutions or universities or semi government or statutory or autonomous organizations; (a)i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/ department; and b) possessing the following educational qualification and experience; <b>Essential :</b> (i) Master's degree in chemistry from a recognised University or institution. 5 years experience in chemical analysis of ores and minerals from a laboratory recognized as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)/Department of Science and Technology (DST) or any other such government organization carrying out chemical analysis of ores and mineral. <b>Desirable:</b> Doctorate degree in chemistry from a recognised University or institution. <b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee considering promotion consist of:</b> 1. Joint Secretary, Ministry of Mines - Chairman. 2. Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines – Member 3. Deputy Secretary, Ministry of Mines - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation including short term contract.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Superintending Chemist	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group A Gazetted (Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract.



(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Senior Chemist in the Pay Band-3, Rs 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/- with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Deputation (including short term contract):</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or semi Government or statutory or autonomous organizations;</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience;</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Master's degree in chemistry from a recognized University or institution.</p> <p>(ii) ten years experience in chemical analysis of ores and minerals a laboratory recognized as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)/Department of Science and Technology (DST) or any other such government organization carrying out chemical analysis of ores and mineral.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Doctorate degree in chemistry for a recognised University.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/member- Union Public Service Commission –Chairman;</li> <li>2. Joint Secretary, Ministry of Mines –Member;</li> <li>3. Chief Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines –Member;</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation including short term contract.</p>

[F. No. 22/1/2010-M-III]

SUDHAKER SHUKLA, Economic Adviser